



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1947 (श10)

(सं० पटना 315) पटना, मंगलवार, 22 अप्रैल 2025

पत्रांक — प्र०-08/रा०शो०-11-03/2025-450

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

निशीथ वर्मा, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-22 अप्रैल, 2025

विषय :- परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित करने के सम्बंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सूचित करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संवाद सं०-3/1/2025-Public दिनांक-21.04.2025 से प्राप्त सूचनानुसार परम पूज्य पोप फ्रांसिस का निधन दिनांक 21.04.2025 को हो गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परम पूज्य पोप फ्रांसिस के सम्मान में 03 (तीन) दिनों का राष्ट्रीय शोक निम्नानुसार संसूचित किया गया है —

- दिनांक 22.04.2025 एवं 23.04.2025 (कुल दो दिन)
- अन्त्येष्टि के दिवस पर एक दिन (जिसकी सूचना अलग से दी जायेगी)

एतद् आलोक में राज्य सरकार द्वारा परम पूज्य पोप फ्रांसिस के सम्मान में उपरोक्त के अनुसार राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में पूरे राज्य में ध्वज उन सभी भवनों, जिन पर नियमित

रूप राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन (Official Entertainment) के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।

विश्वासभाजन,  
निशीथ वर्मा,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 315-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>